



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4828]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2018/अग्रहायण 16, 1940

No. 4828]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2018/AGRAHAYANA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6057(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बेंगलूर रूरल जिले में NH207 के कि.मी. 47.9 से कि.मी. 49.28 (पब्ड कंपाउंड कर सर्किल बंगलूरे - ५६०००१) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल लैंड एक्जीजीशन अफसर एंड कम्पिटेंट अथॉरिटी नेशनल हाइवेज बेंगलूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बैंगलोर रूरल जिले में NH207 के कि.मी. 47.9 से कि.मी. 49.28 (पन्ड कंपाउंड क.र सर्किल बंगलारे - ५६०००१) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य के नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: बैंगलोर रूरल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: होसकोटे					
गांव का नाम: कोरलुर					
1	10	निजी	ड्राई	45.2640000(वर्ग मीटर)	0.0045264
2	11	निजी	ड्राई	186.6240000(वर्ग मीटर)	0.0186624
3	12	निजी	ड्राई	123.5880000(वर्ग मीटर)	0.0123588
4	188	निजी	बिलटूप एरिया अर्बन एरिया	250.4520000(वर्ग मीटर)	0.0250452
5	189	निजी	बिलटूप एरिया अर्बन एरिया	153.0840000(वर्ग मीटर)	0.0153084
6	190	निजी	बिलटूप एरिया अर्बन एरिया	213.1320000(वर्ग मीटर)	0.0213132
7	2	निजी	ड्राई	602.6160000(वर्ग मीटर)	0.0602616
8	6	निजी	ड्राई	20.2560000(वर्ग मीटर)	0.0020256
9	63	निजी	बिलटूप एरिया अर्बन एरिया	355.5120000(वर्ग मीटर)	0.0355512
10	88	निजी	ड्राई	97.6440000(वर्ग मीटर)	0.0097644
11	89	निजी	ड्राई	194.7360000(वर्ग मीटर)	0.0194736
12	9	निजी	ड्राई	128.0400000(वर्ग मीटर)	0.0128040
13	91	निजी	बिलटूप एरिया अर्बन एरिया	100.9440000(वर्ग मीटर)	0.0100944
14	92	निजी	बिलटूप एरिया अर्बन एरिया	719.6280000(वर्ग मीटर)	0.0719628
15	95	निजी	बिलटूप एरिया अर्बन एरिया	243.0200000(वर्ग मीटर)	0.0243020
16	97	निजी	बिलटूप एरिया अर्बन एरिया	56.1840000(वर्ग मीटर)	0.0056184
कुल				3,490.7240	0.3491

[फा. सं. RW/NH-12014/KNT(4)LA-17/S&R(B)/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2018

S.O. 6057(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH207 in the stretch of land from Km 47.9 to Km. 49.28 (PWD Compound K.R Circle Banglore - 560001) in the district of Bangalore Rural in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition officer and Authority National highways banglore in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH207 in the stretch of land from Km. 47.9 to Km. 49.28 (PWD Compound K.R Circle Banglore - 560001) in the district of Bangalore Rural in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: Bangalore Rural			
Sl. No	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Hoskote					
Village: Koralur					
1	10	Private	DRY	45.2640000(Square Meter)	0.0045264
2	11	Private	DRY	186.6240000(Square Meter)	0.0186624
3	12	Private	DRY	123.5880000(Square Meter)	0.0123588
4	188	Private	Builtup Area Urban Area	250.4520000(Square Meter)	0.0250452
5	189	Private	Builtup Area Urban Area	153.0840000(Square Meter)	0.0153084
6	190	Private	Builtup Area Urban Area	213.1320000(Square Meter)	0.0213132
7	2	Private	DRY	602.6160000(Square Meter)	0.0602616
8	6	Private	DRY	20.2560000(Square Meter)	0.0020256
9	63	Private	Builtup Area Urban Area	355.5120000(Square Meter)	0.0355512
10	88	Private	DRY	97.6440000(Square Meter)	0.0097644
11	89	Private	DRY	194.7360000(Square Meter)	0.0194736
12	9	Private	DRY	128.0400000(Square Meter)	0.0128040
13	91	Private	Builtup Area Urban Area	100.9440000(Square Meter)	0.0100944

14	92	Private	Builtup Area Urban Area	719.6280000(Square Meter)	0.0719628
15	95	Private	Builtup Area Urban Area	243.0200000(Square Meter)	0.0243020
16	97	Private	Builtup Area Urban Area	56.1840000(Square Meter)	0.0056184
Total				3,490.7240	0.3491

[F. No. RW/NH-12014/KNT(4)LA-17/S&R(B)/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.